

June 24, 2021

**The Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited**
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
BSE Scrip code – [532541]

**The General Manager,
Department of Corporate Services
The National Stock Exchange of India Limited**
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra, Mumbai – 400 051
NSE Scrip code – [COFORGE]

Subject: Newspaper publication – Intimation of loss of Share certificate

Dear Sir/Ma'am,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the “Notice of loss of share certificate” in the following newspapers:

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take this on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours truly,

For **Coforge Limited**
(Erstwhile NIIT Technologies Limited)

Lalit Kumar Sharma
Company Secretary & Legal Counsel

Encl: as above

Coforge Limited
(erstwhile NIIT Technologies Limited)

CIN: L72100DL1992PLC048753
Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kakaji, New Delhi-110019.
Ph: 91 (11) 4102927 Fax: 91 (11) 26414900
Email: investors@coforgetech.com Website: https://www.coforgetech.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company is reported lost/misplaced by the shareholder/s. The shareholder/s has/has thereon applied to the Company for the issuance of duplicate share certificate:

Folio No.	Name of the Registered holder	Certificate No.	Distinctive Nos.	No. of Shares
4825	SAVITRI DEVI BHATIA	4167	10982718 - 10982718	1
3203	RENUKA	3232	10974122 - 10974122	1
3206	RENUKA	3235	10974125 - 10974125	1

Any person who has claim in respect of the above shares should communicate the same to the Company at its Registered Office (at above address) within 15 (fifteen) days from the date of this advertisement. The Company shall thereafter proceed to issue duplicate share certificate/s in respect of these shares. Thereafter any person dealing with such share certificate/s will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner.

For and on behalf of
Coforge Limited
(erstwhile NIIT Technologies Limited)
Sd/-
Lalit Kumar Sharma
Company Secretary & Legal Counsel

Dated : June 23, 2021
Place : New Delhi

Bank of Baroda
Branch- Dausa, District CT- Dausa (Raj.)
Phone. - 8094018348

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas, The undersigned being the authorized officer of the Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice Dated 07-04-2021 calling upon the borrower Mr. Chandra Prakash Sain S/o Sh. Om Prakash Sain, Pooja Sain W/o Chandra Prakash Sain to repay the amount mentioned in the notice being Rs.9,61,050.40 (Rupees Nine Lacs Sixty One thousand Fifty and Paise Forty only) as on 31.03.2021 together with further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the Act read with rule 8 of the said Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this 19th day of June of the year 2021. The Borrower/Guarantor/Mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Baroda, Branch Dausa, Dist- Dausa for an amount Rs.9,61,050.40 (Rupees Nine Lacs Sixty One thousand Fifty and Paise Forty only) as on 31.03.2021 and further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment. The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
Equitable Mortgage of land & building (Villa), Bearings survey no. LIG-3, Avas Sankhya S-230, ACL Green Part 2, at village Dalapura, Near Guptheswar Mandir, Main Lalsot Bye Pass Road, Dausa (Raj.) standing in the name of Mrs. Pooja Sain W/o Chandra Prakash and Sh. Chandra Prakash. Admeasuring 65.78 sq yard. Bounded:- East: S-227, West: South Block Lane No. 12, North: S-231, South: S-229
Chief Manager
Authorized Officer

Place : Dausa Date: 19.06.2021

Canara Bank
ANNEXURE-10

POSSESSION NOTICE [Section 13(4)] (For Immovable Property)

Whereas: The undersigned being the Authorized Officer of the Canara Bank under Securitization And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as the 'Act') and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 05.04.2021 calling upon the Borrower Sh. Rajendra Singh Khangarot and Co-borrower Sh. Adhiraj Singh Khangarot to repay the amount mentioned in the notice, being Rs 33,23,527.04 (Rupees Thirty Three Lakhs Twenty Three Thousand five hundred Twenty Seven and four paisa) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this 19th day of June of the year 2021. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs.33,23,527.04 (Rupees Thirty Three Lakhs Twenty Three Thousand Eight hundred Ninety Seven and Four paisa) and further interest and other expenses thereon. The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
All that part and parcel of the property consisting of Residential Plot No. 122, Officers Campus Janak Marg, Sirsi Road, Khatipura, Jaipur, Rajasthan Measuring 3111.51 Sq. yards. Boundaries: On the North by: Road, On the South by: Plot No. 129, On the East by: Plot No. 123, On the West by: Plot No. 121
Date: 19.06.2021 Place : Jaipur Authorized Officer, Canara Bank

JAIN MARMO INDUSTRIES LIMITED
REGD OFF. 47/10, KIRANPATT MANSAROVER, JAIPUR RAJASTHAN-302020
Work Office: N-H-8, Sukher, Opp. Diamond Petrol Pump, Udaipur-313001 (Raj.)
TEL:- 0294-2441666/2441777. EMAIL :- jainmarmo_uadr@yahoo.com
CIN:- L14101RJ1981PLC002419. Website:- www.jainmarmo.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure requirements) Regulation 2015, that the meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Wednesday, 30th June, 2021 at the Work office of the Company situated at N.H. 8, Sukher, Udaipur-Rajasthan 313001 inter alia to consider and take on records the Audited Financial Results of the company for the Quarter and year ended 31st March, 2021. This information is also available on the website of the company at www.jainmarmo.com and on the website of BSE Ltd at www.bseindia.com By order of the board for Jain Marmo Industries Ltd.
SD/-, Sidharth Jain, Managing Director.
DIN 01275906

Government of Jammu and Kashmir
Office of the Executive Engineer (Distribution),
Jammu Power Distribution Corporation Limited
(JPDC) Electric Division Kathua
Power Development Department, Email- xenmrekathua123@gmail.com

NOTICE INVITING e-TENDERS
e-NIT No:KED/09 of 2021-22 Dated:-07.06.2021

For and on behalf of the Lieutenant Governor of the UT of Jammu and Kashmir, the Executive Engineer (Distribution), JPDC, Electric Division, Kathua, hereinafter referred as 'Employer', invites online e-bids from reputed Companies or Class 'A' registered Electrical contractors for Creation of 63KVA Sub Stations in District Kathua for the Year 2021-22 under Summer Preparedness on Turkey basis in respect of O&M Division, Kathua (JPDC).
S.No.1, Cost of Tender Document (in Rs.) :- 2000/-, Tender Value :- Rs. 83.56 Lakhs, Date and time of Downloading of Bidding documents :- 07.06.2021 (10.00 A.M.), Last date and time of e-Bid submission :- 29.06.2021 (02.00PM)
Date and Time of opening of e-Bids :- 29.06.2021 (12.00PM)
The tender document consisting of terms and conditions, Bill of quantities and other details can be downloaded from <http://tenders.gov.in>

Sd/- Executive Engineer
JPDC, O&M Division Kathua

No. DIP/J-1234-P/21 Dated : 22-06-2021

Bank of Baroda
Branch- Dausa, District CT- Dausa (Raj.)
Phone. - 8094018348

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas, The undersigned being the authorized officer of the Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice Dated 07-04-2021 calling upon the borrower M/s Deeksha Iron Industries Pvt. Ltd. to repay the amount mentioned in the notice being Rs.62,62,212.57 (Rupees Sixty Two Lacs Sixty Two thousand Two hundred Twelve and Paise Fifty Seven only) as on 31.03.2021 together with further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the Act read with rule 8 of the said Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this 19th day of June of the year 2021. The Borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Baroda, Branch Dausa, Dist- Dausa for an amount Rs.62,62,212.57 (Rupees Sixty Two Lacs Sixty Two thousand Two hundred Twelve and Paise Fifty Seven only) as on 31.03.2021 and further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment. The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
Equitable Mortgage of Industrial land & building situated on Plot No. 63 (situated in Khasra No. 212/2 admeasuring 800 sq mtrs & Khasra No. 214 admeasuring 700 sq mtrs) RHCO Industrial Area, Village- Bapi, Tehsil and District Dausa (Raj.) Total Area admeasuring 1500 Sq Mtrs, standing in the name of M/s Deeksha Iron Industries Pvt. Ltd. Bounded:- East: Plot No. 62, West: Plot No. 64, North: Plot No. 74, South: 12 Mtrs. Wide Road.
Chief Manager
Authorized Officer

Place : Dausa Date: 19.06.2021

SBFC Finance Private Limited
(erstwhile Small Business Fincrdit India Private Limited)
Registered Office: Unit No. 103, First Floor, C&S Square, Sangam Complex, Village Chakala, Andheri- Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400059.

POSSESSION NOTICE
(As per Rule 8(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of SBFC Finance Private Limited under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notices upon the Borrowers/Co-borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower/Co-borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates.

The Borrower/Co-borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of SBFC Finance Private Limited.

Name and Address of Borrowers & Date of Demand Notice	Description of Property(ies) & Date of Possession	Amount demanded in Possession Notice (Rs.)
1. Liswan Retail Pvt Ltd, ADD-Shop No 310-C, 3rd Floor, Vardhman Star Mall, Sector 19, Faridabad, Haryana - 121002. 2. Sanjiv Kumar, 3. Brij Lata, 4. Mangal Ram Panwar, 5. Satish Chand, No.2 to no. 5 all are residing at House No. 610, Gali No.8, Near Bansal Nursing Home, Adarsh Colony, Palwal, Haryana- 121102 Demand Notice Date: 15-Feb-2021	All the piece and parcel of property i.e. Property/ Land area measuring 8.5 Marla, Out of Khevat No 3072, Mustali No 164, Killa No 211 (6-8), (Ho. No. 610) situated at Vaka Mauja Municipal Limit of Palwal (New Basti Sallagarh), Tehsil Palwan, Faridabad, Haryana- 121102 Date of Possession: 22-Jun-2021	Rs. 48,27,211/- (Rupees Forty Eight Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred Eleven Only) as on 15th February 2021

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sd/-
Authorized Officer
SBFC Finance Private Limited

SBFC Finance Private Limited
(erstwhile Small Business Fincrdit India Private Limited)
Registered Office: Unit No. 103, First Floor, C&S Square, Sangam Complex, Village Chakala, Andheri- Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400059.

POSSESSION NOTICE
(As per Rule 8(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of SBFC Finance Private Limited under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notices upon the Borrowers/Co-borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower/Co-borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates.

The Borrower/Co-borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of SBFC Finance Private Limited.

Name and Address of Borrowers & Date of Demand Notice	Description of Property(ies) & Date of Possession	Amount demanded in Possession Notice (Rs.)
1. Liswan Retail Pvt Ltd, ADD-Shop No 310-C, 3rd Floor, Vardhman Star Mall, Sector 19, Faridabad, Haryana - 121002. 2. Sanjiv Kumar, 3. Brij Lata, 4. Mangal Ram Panwar, 5. Satish Chand, No.2 to no. 5 all are residing at House No. 610, Gali No.8, Near Bansal Nursing Home, Adarsh Colony, Palwal, Haryana- 121102 Demand Notice Date: 15-Feb-2021	All the piece and parcel of property i.e. Property/ Land area measuring 8.5 Marla, Out of Khevat No 3072, Mustali No 164, Killa No 211 (6-8), (Ho. No. 610) situated at Vaka Mauja Municipal Limit of Palwal (New Basti Sallagarh), Tehsil Palwan, Faridabad, Haryana- 121102 Date of Possession: 22-Jun-2021	Rs. 48,27,211/- (Rupees Forty Eight Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred Eleven Only) as on 15th February 2021

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sd/-
Authorized Officer
SBFC Finance Private Limited

Union Bank
Regional Office: 101A, 101B & 102, Kishan Bhawan, Lal Kothari, Tonk Road, Jaipur-302015

Demand Notice Under sec.13 (2)
To, M/s Super 29 Food, 185-186, Kanaram Nagar, Teen Dukan, Ward No 06, Dehar ka Balaji, Jaipur-302039, Rajasthan
Sir/Madam,
Sub: Enforcement of Security Interest Action Notice- in connection with the credit facilities enjoyed by M/s Super 29 Food with our New Sanagan Road Branch classified as NPA on 31.03.2021.

This is to inform you that your account M/s Super 29 Food has been classified as NPA account as on 31.03.2021 pursuant to your default in making repayment of dues/installment/interest/Non-Renewal of Limit. On 30.04.2021 a sum of Rs. 11,35,224.13 (Rupees Eleven Lakhs Thirty Five Thousand Two Hundred Twenty Four and Paise Thirteen Only) plus interest and charges thereon is outstanding in your account/accounts as shown below.

Nature of Advances	Amount (Rs. in lacs)	Outstanding Amount (Rs.)
Term Loan A/c No. 756005010000103	Rs. 10.00 Lakhs	Rs. 1135224.13

Total Amount: As on 30.04.2021 Rs. 11,35,224.13 (Rupees Eleven Lakhs Thirty Five Thousand Two Hundred Twenty Four and Thirteen Paise Only)+ Interest & Charges thereon.

In spite of our repeated demands you have not paid any amount towards the amount outstanding in your account/accounts/you have not discharged your liabilities.

We do hereby call upon you in terms of section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, to pay a sum of Rs. 11,35,224.13 (Rupees Eleven Lakhs Thirty Five Thousand Two Hundred Twenty Four and Paise Thirteen Only) together with interest and charges at the contractual rate with monthly interest w.e.f. 31.03.2021 as per the terms and conditions of loan documents executed by you and discharge your liabilities in full within 60 days from the date of receipt of this notice, failing which, we shall be constrained to enforce the following securities created by Mr. Ashok Kumar Meena in favor of the bank by exercising any or all of the rights given under the said Act.

DESCRIPTION OF THE SECURED ASSETS:-
Residential Flat No. FF-3, MIG-A, Block-S, First Floor, Omex City Bagru Khurd Ajmer Road Jaipur. In the name of Mr. Ashok Kumar Meena Bounded by North: Flat No. FF/4, South: Stair Case & Then Flat No. FF/2, East: Passage, West: Open Space.

1) Please note that if you fail to remit the dues within 60 days and if Bank exercises all its rights under this Act and if the dues are not fully satisfied with the sale of proceeds of the secured assets, we shall be constrained to take appropriate legal action against you in a court of law/ Debt Recovery Tribunal for recovery of the balance amount from you.

2) As per sec.13 (13) of the Act, on receipt of this notice you are restrained from disposing of or dealing with the above securities except in the usual course of business without the consent of the Bank. Please note any violation of this section entails serious consequences.

3) Your kind attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

Yours faithfully, Authorized Officer

ANAND RATHI
Anand Rathi Global Finance Ltd Express Zone, A Wing, 10th Floor, Western Express Highway, Diagonally Opposite Oberoi Mall, Goregaon (E), Mumbai 400063.

DEMAND NOTICE

Whereas the borrowers/co-borrowers hereunder have availed the financial assistance from Anand Rathi Global Finance Ltd. We state that despite having availed the financial assistance, the borrowers/co-borrowers have committed various defaults in repayment of interest and principal amounts as per due dates. The account has been classified as Non-Performing Asset on the respective dates mentioned hereunder in accordance with the directives/guidelines issued by Reserve Bank of India. The Authorized Officer of Anand Rathi Global Finance Ltd. under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under Section 13(12) of SARFAESI Act, 2002 issued Demand Notices upon the borrowers/mortgagors to repay the amount mentioned in the notices together with further interest at the contractual rate on the amount mentioned in the notices and incidental expenses, cost, charges etc. until the date of payment within 60 days from the date of the notices.

NAME OF THE BORROWER / ADDRESS	CO-BORROWER/S NAME	NPA DATE	OUTSTANDING AMT (Rs.)	PROPERTY ADDRESS OF SECURED ASSETS
M/s. Nectar Hospitality (Borrower) 507, 5th Floor, Gagandeep Building, Rajendra Park, New Delhi: 110008	Mr. Tarun Sikka Mrs. Neha Manekta (Co-borrower/s) Road No. 17, House No.3 East Punjabi Bagh, New Delhi: 110026	06/06/2021	Rs. 4,04,79,329/- (As on 15.06.2021)	House No. 10, Block 16, East Patel Nagar, Delhi: 110008.
		DATE OF DEMAND NOTICE	LOAN AMOUNT (Rs.)	
		19/06/2021	Rs. 3,65,27,000/-	

In the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the above borrowers and co-borrowers to pay the outstanding dues as mentioned above along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days from the date of this notice against the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the applicable rules thereunder.

In case you are desirous of making any representation in response to this notice, please mark the same to our Authorized Officers Mr. Mohit Chopra, A-254, 1st Floor, Anand Rathi Tower, Defence Colony, New Delhi- 110 024/ Mr. Rohit Salwan, Anand Rathi Global Finance Ltd. at 8th Floor, A Wing, Express Zone Building, Western Express Highway Road, Goregaon (East), Mumbai- 400 063, only to enable us to respond in time. Please note that we shall not be responsible for not responding to any of your representations made in response to this notice if the same is addressed to any other person or place.

Please note that under Section 13(13) of the said Act, no borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise any of his secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the secured creditor.

Sd/-
AUTHORIZED OFFICER (ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED)

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE (APPENDIX - IV A) (Rule 8(6))

Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned in sealed covers for purchase of immovable property, as described hereunder, which is in the possession, "AS IS WHERE IS" and "WHAT EVER THERE IS" BASIS particulars of which are given below:-

Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the immovable property/ Secured Assets	Date of Physical Possession	Total Outstanding as on date 21-June-2021
1. Mr. Ramesh Gupta (Prospect No. 763250 & 770456)	Rs. 39,13,372/- (Rupees Thirty Nine Lakh Thirteen Thousand Three Hundred and Seventy Two Only)	All that part and parcel of the properties bearing LIG Flat No. 172, Ground Floor, Block-A, Pocket-3, Sector-7 situated at Rohini Residential Scheme, Rohini, Delhi (Area:517 Sq.Ft.)	20-Mar-2021	Rs. 43,48,801/- (Rupees Forty Three Lakh Forty Eight Thousand Eight Hundred and One Only)
	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD)		
	Rs. 29,00,000/- (Rupees Twenty Nine Lakh Only)	Rs. 2,90,000/- (Rupees Two Lakh Ninety Thousand Only)		

Date of inspection of property EMD Last Date
12-July-2021 till 5 pm
1100 hrs - 1400 hrs

Date/ time of Auction
16-July-2021 1100 hrs - 1300 hrs

Concerned Branch - IIFL Home Finance Ltd., Plot No. 30/30C, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Mohi Nagar, New Delhi (Contact Person: Mr. Jay Nair @ 9910999001)

1. Date of inspection of the immovable property is 12-July-2021 between 1100 hrs - 1400 hrs.

2. Last date of submission of sealed offers in the prescribed tender forms along with EMD is 14-July-2021 till 5 pm at the branch office address.

3. Date of opening of the offers for the Property is 16-July-2021 at the above mentioned branch office address at 1100 hrs - 1300 hrs the tender will be opened in the presence of the Authorized Officer.

4. Further interest will be charged as applicable, as per the Loan Agreement on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc., is due and payable till its realization excluding legal and any incidental charges thereupon.

5. The notice is hereby given to the Borrower and Guarantor, to remain present personally at the time of sale and they can bring the intending buyers/purchasers for purchasing the immovable property as described herein above, as per the terms and conditions of sale.

6. The Borrower(s)/Guarantor(s) are hereby given 15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE RULE 9 SUB RULE (1) OF SARFAESI ACT, 2002 to pay the sum mentioned as above before the date of Auction failing which the immovable property will be auctioned and balance, if any, will be recovered with interest and costs if the Borrower pays the amount due to IIFL Home Finance Limited in full before the date of sale, auction is liable to be stopped.

7. The EMD shall be payable through DD in favour of "IIFL Home Finance Limited" payable at GURGAON and shall be submitted at the concerned branch/Corporate Office.

8. The detail terms and conditions of the auction sale are incorporated in the prescribed tender form. Tender forms are available at the above branch office, or also you can refer <https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction>.

9. The immovable property will be sold to the highest tenderer. However, the undersigned reserves the absolute discretion to allow inter se bidding, if deemed necessary.

10. Tenders that are not filled up or tenders received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD.

11. Company is not responsible for any liabilities upon the property which is not in the knowledge of the company.

For further details, contact Mr. Vijay Kumar @9911562664, Email- vijay.kumar15@iifl.com, Corporate Office : Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana-122015. Place: Delhi Date: 24-June-2021

J&K Bank
Serving To Empower
The Jammu and Kashmir Bank
Customer Services Department
Corporate Headquarters, M.A.Road
Srinagar 190 001, J&K

Extension Notice for BID Submission for e-Request for Proposal (e-RFP)
for
Selection of Partner for Operations & Management of Contact Centre Services

Tender Notice along with Complete tender document outlining the minimum requirements can be downloaded from and BIDs can be submitted on the Company's e-Tendering Portal <https://jkbank.abprocure.com> under Event-ID: "50543". Tender Document can also be downloaded from Bank's Official Website www.jkbank.com. Last date for submission of Bids has been Extended up to 07.07.2021, 17.00 Hrs.

e-RFP Ref. No. JKB/CS/Contact-Centre/2021-069
Dated: 27-05-2021

TARC LIMITED
(formerly known as Anant Raj Global Limited)
CIN: L70100HR2016PLC065615
Regd. Office: G002, "MACEO", Sector 91, Gurugram, Haryana 122505
Ph: 0124-5082424, Website: www.tarc.in
Email Id: tarc@tarc.in

FORM NO. INC-26

[Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the Company from one state to another

Before the Central Government
Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND
In the matter of

TARC Limited (formerly known as Anant Raj Global Limited)
having its registered office at: G002, "MACEO", Sector 91, Gurugram, Haryana 122505

DRBL BANK
Administrative Office: 1st Lane, Shahpuri, Kohapur-416001
Branch Office: Unit 14-15, DLF Capitol Point, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi -110001.

PUBLICATION OF NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

Notice is hereby given that the under mentioned borrower(s)/ guarantor(s)/mortgagor(s) who have defaulted in the repayment of principal and interest of the Credit/Loan facilities obtained by them from the Bank and whose loan accounts have been classified as Non-Performing Assets (NPA). The notices were issued by them under Section 13(2) of the Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act) on their last known addresses.

Sl. No.	Name and Address of the Borrower, Co-Borrower/ Guarantors/Mortgagor	Loan Account No.	Details of Properties/ Address of Secured Assets to be Enforced	Date of Notice	Amount Due (in Rs.)
1.	N S Footware (through It's Proprietor/Authorised Signatories) 4-A, Nai Basti, Batuganj, Agra- U.P. 110020. Also At: LIG/H. No. L-1-143, Ground Floor, Shamshabad Marg, Greh Sthan, Yojna Shaheed Nagar, Tagjan Ward, Agra, U.P-282001 Naveen Kumar (co-borrower) (prop- N S Footware) L-1/144, Shaheed Nagar, Agra-U.P. Nitin Singh (Co-borrower) L-1/144, Shaheed Nagar, Agra-U.P. Rajendra / Raj Kumari (co-borrower) L-1/144, Shaheed Nagar, Agra-U.P.	809002296592	LIG -H. No. L-1/143, Ground Floor, Shamshabad Marg, Greh Sthan, Yojna Shaheed Nagar, Tagjan Ward, Agra, U.P-282001 (area Measuring 757 Sq. Ft)	15.06.2021	Rs. 21,81,579/- (Rupees Twenty One Lakhs Eighty One Thousand Five Hundred Seventy Nine only) together with interest at contractual rate, (till complete payment) and incidental expenses thereon.
2.	Shree Kajag Sadan (through It's Proprietor/ Authorised Signatories) Kharsa No-07, Village- Magtaji Post Bichpuri, Agra, UP-282027. Also At: Shop No- 1 And 3, Ground Floor, Block No-77, MK Tower, Sanghatika Hari, Parwat Ward, Agra-U.P.-282002. Shipra Tiwari (co-borrower) (prop- Shree Kajag Sadan) 192, Sector-8, Avas Vikas Colony, Agra Abhishek Tiwari (co-borrower) 192, Sector- 8, Avas Vikas Colony, Agra	809002378595 and 809002811368	Shop No- 1 And 3 on Ground Floor, Block No- 77/2, MK Tower, Sanghatika Hari, Parwat Ward, Agra-U.P.-282002 (area Measuring- 300 Sq. Ft)	15.06.2021	Rs. 78,26,903/- (Rupees Seventy Eight Lakhs Twenty Six Thousand Nine Hundred Three only) together with interest at contractual rate, (till complete payment) and incidental expenses thereon

The above borrowers and /or their guarantor(s)/mortgagor(s) (whenever applicable) are hereby called upon to make payment of outstanding amount within 60 days from the date of publication of this notice, failing which further steps will be taken after expiry of said 60 days under sub-section (4) of Section 13 of SARFAESI Act.

Please note that this publication is made without prejudice to such rights and remedies as are available Bank against the borrower(s) /guarantor(s)/mortgagor(s) of the said loan/facility under the law. You are further requested to note that as per section 13(13) of the said act, you are restrained /prohibited from disposing of or dealing with the above secured asset or transferring by way of sale, lease or otherwise of the above secured asset, without our prior written consent.

Name of ASO
Authorized Officer,
RBL Bank Ltd.

Place: AGRA Date: 24/06/2021

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitization And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules), in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorized Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:-

Name of the Borrower(s)/ Guarantor(s)	Date & Amount	Description of secured asset (immovable property)
Mr. Vikas Jangra, Mrs. Aditi Pawar, M/S Uppanay Jewellers (Prospect No. 733849)	18-June-2021 Rs. 23,05,167.00/- (Rupees Twenty Three Lakh Five Thousand One Hundred Sixty Seven Only)	All that piece and parcel of the property being : Uttam Nagar B-2/73 area measuring 200 sq.yds. First Floor (REAR R.H.S.) Khasra no.4122 Village Matiala Kiran Garden West Delhi, Delhi, India.
Mr. Puneet Arora, Mrs. Gargi Arora (Prospect No. 733851)	18-June-2021 Rs. 18,38,281.00/- (Rupees Eighteen Lakh Thirty Eight Thousand Two Hundred Eighty One Only)	All that piece and parcel of the property being : Uttam Nagar First Floor area admeasuring 68 sq.yds. 261 and 262 Khasra no.481, Block B Navada Mohan Garden Delhi, India.
Mr. Nandan Singh, Mrs. Rekha Bishri, Mrs. Saroj Rani (Prospect No. 858016)	18-June-2021 Rs. 10,76,251.00/- (Rupees Ten Lakh Seventy Six Thousand Two Hundred Fifty One Only)	All that piece and parcel of the property being : Pt. Flat No. F-4, Admeasuring 416 Sq.Ft. On First Floor, Without Roof Rights Area Measuring 46 Sq. Yds. Said Flat Part Of Southern Side Portion Of Property No. Wz-490 Area Measuring 40 Sq. Yds. Out of Khasra No. 94/9/2, 9/1 Situated In The Residential Colony Known As Sadh Nagar Area Of Village Palam New, Delhi, Delhi, 110045, Delhi, India.
Mr. Sneh Kumar, Mrs. Ravishia Sharma (Prospect No. 869600 & 809215)	18-June-2021 Rs. 34,06,963.00/- (Rupees Thirty Four Lakh Six Thousand Nine Hundred Sixty Three Only) Prospect No. 869600 Rs. 7,76,071.00/- (Rupees Seven Lakh Seventy Six Thousand Seventy One Only)	All that piece and parcel of the property being : Khasra

